


चाइल्डकेयर या प्राइमरी स्कूल के बीमार बच्चों को कब घर पर ही रहना चाहिए?



1. क्या आपके बच्चे में पिछले 24 घंटों में बुखार, खाँसी, गले में खराश या जुकाम के लक्षण दिखाई दिए हैं?



आपके चाइल्डकेयर या प्राइमरी स्कूल के बच्चे को घर पर ही रहना चाहिए। यदि बच्चे की हालत और बिगड़ जाती है और/या आप चिंतित हैं, तो अपने डॉक्टर या निश्चित समयावधि के बाद की चिकित्सा सेवा से संपर्क करें।

2. क्या 48 घंटे के बाद भी आपका बच्चा बीमार है?



हाँ


यदि आपका बच्चा पहले से स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर या निश्चित समयावधि के बाद की चिकित्सा सेवा से संपर्क करें। यदि आपके बच्चे का COVID-19 का परीक्षण किया जाना चाहिए, तो यह डॉक्टर तय करेंगे।



नहीं

जब आपका बच्चा अच्छी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा हो और उसे बुखार न हो तब वह चाइल्डकेयर या स्कूल जा सकता है। भले ही आपके बच्चे को अभी भी कफ/जुकाम, गला बैठना या हल्की खाँसी जैसे हल्के लक्षण हों तब भी वह चाइल्डकेयर या प्राइमरी स्कूल में जा सकता है। COVID-19 के लिए बच्चे का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है।

3. क्या आपके बच्चे का COVID-19 के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए?



हाँ


जब तक परीक्षण के परिणाम नहीं आ जाते तब तक आपके बच्चे को घर पर ही रहना चाहिए।



नहीं

जब आपका बच्चा पहले से स्वस्थ महसूस कर रहा हो और उसे बुखार न हो तब वह चाइल्डकेयर या प्राइमरी स्कूल में जा सकता है। भले ही आपके बच्चे को अभी भी कफ/जुकाम, गला बैठना या हल्की खाँसी जैसे हल्के लक्षण हों तब भी वह चाइल्डकेयर या प्राइमरी स्कूल में जा सकता है।

4. क्या परीक्षण का परिणाम बताता है कि आपके बच्चे को COVID-19 है?



हाँ

आपके बच्चे को घर पर ही रहना चाहिए। नगरपालिका आपको बताएगी कि बच्चे के बीमार होने पर आपको और आपके परिवार को किन नियमों का पालन करना चाहिए।



नहीं

जब आपका बच्चा पहले से स्वस्थ महसूस कर रहा हो और उसे बुखार न हो तब वह चाइल्डकेयर या प्राइमरी स्कूल में जा सकता है। भले ही आपके बच्चे को अभी भी कफ/जुकाम, गला बैठना या हल्की खाँसी जैसे हल्के लक्षण हों तब भी वह चाइल्डकेयर या प्राइमरी स्कूल में जा सकता है।

अपने डॉक्टर या निश्चित समयावधि के बाद की चिकित्सा सेवा से संपर्क करें, यदि आपके बच्चे को सर्दी है और:

- बच्चा खेलना या कोई गतिविधि नहीं करना चाहता है।
- बच्चे को बुखार, माँसपेशियों में दर्द, भूख में कमी हो, सुस्ती, मतली या चक्कर आ रहे हों।
- आराम करते समय साँस लेने में कठिनाई और/या सामान्य से अधिक तेजी से साँस लेना
- याद रखें कि छोटे बच्चे यह नहीं बता सकते कि वे कैसा महसूस करते हैं, वे शिकायती, जिद्दी या चिड़चिड़े हो सकते हैं।